

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर 2016—भाद्र 28, शक 1938

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन,  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म. प्र.) 462 011  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. एफ-65-01-2016-तीन-561.—मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पद का माह सितम्बर 2016 (पूर्वाद्ध) में कराये गये उप निर्वाचन में निर्वाचित पार्षद व्यक्ति निम्नानुसार है :—

स. क्र.	नगरपालिक निगम का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना.	पार्षद	26	छब्बीस	रचना सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.